



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 8, 2014/पौष 18, 1935
No. 5] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 8, 2014/PAUSA 18, 1935

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2014

सं. 01/2014-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 6(अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 और वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 94 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 में और आगे संशोधन किए जाने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम 'सेनवेट क्रेडिट (पहला संशोधन नियमावली, 2014)' होगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन से प्रभावी होंगे।

2. सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 3 में,—

- (i) उप-नियम 5 (ख) के परंतुक के पश्चात् आने वाले स्पष्टीकरण को निरसित कर दिया जाएगा;
- (ii) उप-नियम 5(ग) में "उक्त वस्तुओं के उत्पादन" शब्दों के पश्चात् "और उक्त वस्तुओं के विनिर्माण या उत्पादन में या इस संबंध में प्रयुक्त आदान सेवाओं पर लिये गये सेनवेट क्रेडिट" शब्द अंतःस्थापित किये जायेंगे।
- (iii) उप-नियम 5(ग) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंतः स्थापित किया जाएगा यथा:—

स्पष्टीकरण 1:— उप-नियम(5), 5(क), 5(ख) तथा 5(ग) के अंतर्गत देय राशि जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, का भुगतान, माल के विनिर्माता या निवेश सेवा प्रदाता के द्वारा सेनवेट

क्रेडिट को घटाकर या अन्यथा आगामी माह की पाँच तारीख को या उसके पहले, मार्च महीने को छोड़कर जहाँ कि मार्च माह की 31 तारीख को या उसके पहले भुगतान करना होगा, किया जाएगा।

स्पष्टीकरण 2:— यदि वस्तुओं का विनिर्माता या निर्गत सेवा प्रदाता उप-नियम 5, 5(क), 5(ख) तथा 5(ग) के अंतर्गत भुगतान किये जाने वाली राशि का भुगतान करने में असफल हो जाता है तो इसको गलत ढंग से प्राप्त और प्रयोग किये गये सेनवेट क्रेडिट की वसूली के लिए नियम 14 में विनिर्दिष्ट तरीके से वसूला जायेगा।

[फा. सं. 267/126/2011-सी एक्स. 8]

पंकज जैन, अवर सचिव

टिप्पण:—मुख्य नियमावली को अधिसूचना सं. 23/2004-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टै.) दिनांक 10 सितम्बर, 2004 के द्वारा, सं. सा.का.नि. 600(अ), दिनांक 10 सितम्बर, 2004 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 18/2013-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टै.) दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 जिसे सा.का.नि. 808(अ) दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था के द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January, 2014

No. 01/2014-Central Excise (N.T.)

G.S.R. 6(E).—In exercise of the powers conferred by Section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) and Section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central

Government hereby makes the following rules further to amend the CENVAT Credit Rules, 2004, namely :—

1. (1) These rules may be called the CENVAT Credit (First Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 3 of the CENVAT Credit Rules, 2004,—

- (i) the Explanation occurring after the proviso to sub-rule (5B) shall be omitted;
- (ii) in sub-rule (5C), after the words "production of said goods", the words "and the CENVAT credit taken on input services used in or in relation to the manufacture or production of said goods" shall be inserted;
- (iii) after sub-rule (5C), the following explanations shall be inserted, namely: —

Explanation 1.—The amount payable under sub-rules (5), (5A), (5B) and (5C), unless specified otherwise, shall be paid by the manufacturer of goods or the provider of output service by debiting the CENVAT credit or otherwise on or before the 5th day of the following month except for the month of March, where such payment shall be made on or before the 31st day of the month of March.

Explanation 2.—If the manufacturer of goods or the provider of output service fails to pay the amount payable under sub-rules (5), (5A), (5B) and (5C), it shall be recovered, in the manner as provided in rule 14, for recovery of CENVAT credit wrongly taken and utilised."

[F. No. 267/126/2011-CX. 8]

PANKAJ JAIN, Under Secy.

Note:—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 10th September, 2004, vide Notification No. 23/2004-Central Excise (N.T) dated the 10th September, 2004, vide number G.S.R. 600(E), dated the 10th September, 2004 and last amended *vide* Notification No. 18/2013-Central Excise (N.T.) dated the 31st December, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 808 (E), dated the 31st December, 2013.